

## फाल्केटेड डक

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में गुरुग्राम के [सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान](#) में पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों ने एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति, **फाल्केटेड डक** को देखा।



### मुख्य बटु

- **फाल्केटेड डक:**
  - फाल्केटेड डक ([???????? ???? ????????](#)), जिसे फाल्केटेड डक के नाम से भी जाना जाता है, एक डैबलिंग बतख है।
- **वितरण/ डिसट्रीब्यूशन:**
  - पूर्वी साइबेरिया और मंगोलिया से लेकर उत्तरी जापान तक पाया जाता है।
  - शीतकालीन प्रवास क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में शामिल हैं।
  - अमेरिका, पोलैंड और थाईलैंड में भी इसके दुर्लभ दृश्य दर्ज किये गये हैं।
- **प्राकृतिक वास:**
  - यह वनों से घरी स्वच्छ जल की झीलों, तालाबों, नदियों और दलदलों को पसंद करता है।
- **प्रजनन:**
  - प्रजनन काल मई से जुलाई के प्रारंभ तक रहता है।
  - घोंसले आमतौर पर पानी के पास जमीन पर, ऊँची घास या झाड़ियों में बनाए जाते हैं।
- **आहार:**
  - मुख्यतः शाकाहारी, वनस्पति पदार्थ, बीज, चावल और जलीय पौधे खाते हैं।
  - कभी-कभी छोटे अकशेरुकी और नरम खोल वाले मोलस्क का सेवन करता है।
- **परसिंकट:**
  - उनके मांस और पंखों की मांग के कारण शिकार एक बड़ा संकट है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - [अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ \(IUCN\)](#) द्वारा इसे "नकिट संकटग्रस्त" श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

### सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान

■ **परिचय:**

- सुलतानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिये एक स्वर्ग है। यह **प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिये प्रसिद्ध है।**
  - प्रवासी पक्षी सितंबर में उद्यान में आना शुरू हो जाते हैं। पक्षी मार्च-अप्रैल तक उद्यान को आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
  - **ग्रमियों और मानसून के महीनों** के दौरान उद्यान में कई स्थानीय पक्षी प्रजातियाँ नविस करती हैं।
- अप्रैल 1971 में, उद्यान के अंदर **सुलतानपुर झील** (1.21 वर्ग कमी. का क्षेत्र) को **पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1959** की धारा 8 के तहत **अभयारण्य** का दर्जा दिया गया था।
- जुलाई 1991 में **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के अंतर्गत उद्यान का दर्जा बढ़ाकर **राष्ट्रीय उद्यान** कर दिया गया।

■ **स्थान:**

- यह उद्यान हरियाणा के गुडगाँव ज़िले में स्थित है। उद्यान की दूरी दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर और गुडगाँव से 15 किलोमीटर है।

■ **उद्यान में महत्त्वपूर्ण जीव:**

- स्तनधारी: **काला हरिण, नीलगाय, पाढ़ा (हॉग हरिण), सांभर, तेंदुआ** आदि।
- पक्षी: **साइबेरियन करेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, डेमोइसेल करेन** आदि।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/falcated-duck>

